


Serial Number



0035855



<b>E-814</b> 		Roll No. ....	
Higher Secondary Examination (Regular) - 2020			
<b>इन्फोरमेटिक प्रैक्टिसेस</b> <b>INFORMATICS PRACTICES</b> (Hindi & English Versions)			
Total Questions : <b>18</b>	Total Printed Pages : <b>8</b>	Time : <b>3 Hours</b>	Maximum Marks : <b>70</b>

निर्देश :

- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से हल करना हैं ।
- (ii) प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है ।
- (iii) प्रश्न क्रमांक 5 से 7 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं । उत्तर सीमा लगभग 30 शब्द हैं ।
- (iv) प्रश्न क्रमांक 8 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं । उत्तर सीमा लगभग 75 शब्द हैं ।
- (v) प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं । उत्तर सीमा लगभग 120 शब्द हैं ।
- (vi) प्रश्न क्रमांक 16 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं । उत्तर सीमा लगभग 150 शब्द हैं ।
- (vii) प्रश्न क्रमांक 5 से 18 तक आन्तरिक विकल्प दिये गए हैं ।

Instructions :

- (i) All questions are **compulsory** to solve.
- (ii) Question Nos. 1 to 4 are objective type questions. Each question is allotted 5 marks.
- (iii) Question Nos. 5 to 7 carry 2 marks each. Answer word limit is 30 words.
- (iv) Question Nos. 8 to 10 carry 3 marks each. Answer word limit is 75 words.
- (v) Question Nos. 11 to 15 carry 4 marks each. Answer word limit is 120 words.
- (vi) Question Nos. 16 to 18 carry 5 marks each. Answer word limit is 150 words.
- (vii) Internal options are given in Question Nos. 5 to 18.



1 निम्नलिखित में से सही उत्तर छाँटकर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए :

5

(अ) माडेम (modem) का पूरा नाम है -

- (i) माडुलेटर - डी माडुलेटर
- (ii) माडूलेशन - डी माडूलेशन
- (iii) माडूलेटर - डिस्कशन
- (iv) उपर्युक्त सभी

(ब) क्लिक होने पर यह एक्शन शुरू करने के लिए प्रयोग किया जाता है -

- (i) J Dialog
- (ii) J Frame
- (iii) J Panel
- (iv) J Button

(स) वैल्यू को स्टोर करने के लिए रिजर्व मेमोरी लोकेशन को कहा जाता है -

- (i) डेटा टाइप
- (ii) कांस्टेंट
- (iii) क्लास
- (iv) वेरियेबल

(द) D.B.M.S. क्या है ?

- (i) डाटाबेस मैनेजमेन्ट सिस्टम
- (ii) डाटाबेस मैनेजर सिस्टम
- (iii) डाटा मैनेज सिस्टम
- (iv) इनमें से कोई नहीं

(इ) E-governance की term में NIC का full-form क्या है ?

- (i) नेशनल इन्फॉर्मेशन सेन्टर
- (ii) नोवल इंडस्ट्रीयल सेन्टर
- (iii) नेडल इंडस्ट्रीयल सेन्टर
- (iv) नेशनल इंडस्ट्रीयल सेन्टर

Choose the correct alternatives and write in your answer book :

(A) The full name of the modem :

- (i) Modulator - D modulator
- (ii) Modulation - D Modulation
- (iii) Mopdulator - Discussion
- (iv) All of the above

(B) This is used to initiate an action when it is clicked :

- (i) J Dialog
- (ii) J Frame
- (iii) J Panel
- (iv) J Button



- (C) Reserved memory locations to store values is called -
- (i) Data types (ii) Constant  
(iii) Class (iv) Variables
- (D) What is D.B.M.S. ?
- (i) Database Management System  
(ii) Database Manager System  
(iii) Data Manage System  
(iv) None of these
- (E) What is the full form of the NIC in E-governance term ?
- (i) National Information Center  
(ii) Novel Industrial Center  
(iii) Nodal Industrial Center  
(iv) National Industrial Center

2 निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये :

5

- (i) नेटवर्क की गति \_\_\_\_\_ के रूप में मापी जाती है ।  
(ii) क्लास एक \_\_\_\_\_ डाटा टाइप है ।  
(iii) \_\_\_\_\_ वेब पेज के लिए मानक भाषा है ।  
(iv) एक नया डेटाबेस बनाने के लिए \_\_\_\_\_ कमाण्ड का उपयोग करते हैं ।  
(v) डिजिटल क्रान्ति सामाजिक स्तर पर \_\_\_\_\_ को प्रभावित करती है ।

Fill in the following blanks :

- (i) Network speed is measured as \_\_\_\_\_.  
(ii) Class is a \_\_\_\_\_ data type.  
(iii) \_\_\_\_\_ is the standard language for the web page.  
(iv) To create a new database \_\_\_\_\_ command is used.  
(v) The digital revolutions affect the \_\_\_\_\_ on social level.



3 सही जोड़ी मिलाइए :

“अ”

- (i) टीसीपी
- (ii) जावा
- (iii) हिरार्चिकल मॉडल
- (iv) टपल
- (v) फ्रन्ट एण्ड

“ब”

- (a) प्रोग्रामिंग भाषा
- (b) टेबल की एक पंक्ति
- (c) यूजर
- (d) प्रोटोकाल
- (e) एक पेरेंट और बहुत सारे चाइल्ड
- (f) फ्लोट

Match the following pairs :

"A"

- (i) TCP
- (ii) Java
- (iii) Hierarchical model
- (iv) Tuple
- (v) Front end

"B"

- (a) Programming language
- (b) A row of table
- (c) User
- (d) Protocol
- (e) One parent and many children
- (f) FLOAT

4 एक वाक्य में उत्तर दीजिये :

- (i) प्रोटोकाल क्या है ?
- (ii) JDK का फुल फार्म लिखिये ।
- (iii) फील्ड के कलेक्शन को क्या कहते हैं ?
- (iv) किस फंक्शन की सहायता से किसी भी संख्या का शेषफल निकाला जाता है ?
- (v) फ्लिपकार्ट.कॉम कौन सी वेबसाइट है ?

Answer in one sentence :

- (i) What is protocol ?
- (ii) Write the full form of JDK.
- (iii) What do we say to collection of field ?
- (iv) Which function helps to find any number of the remainder ?
- (v) Which website is Flipkart.com ?



- 5 वायरलेस नेटवर्क को समझाइये । 2  
Explain the wireless network.

अथवा / OR

ओपनसोर्स साफ्टवेयर के कोई दो लाभ लिखिए ।  
Write any two advantages of open source software.

- 6 आइडेंटिफायर क्या हैं ? 2  
What are identifiers ?

अथवा / OR

ब्रेक स्टेटमेन्ट और कंटिन्यू स्टेटमेन्ट में अन्तर लिखिए ।  
Write difference between Break statement and Continue statement.

- 7 MYSQL के FLOAT और DOUBLE के बीच अन्तर लिखिए । 2  
Differentiate between FLOAT and DOUBLE of MYSQL.

अथवा / OR

प्राथमिकी की और कैंडिडेट की के बीच अन्तर लिखिए ।  
Differentiate between primary key and candidate key.

- 8 जावा कन्ट्रोल स्ट्रक्चर को समझाइये और इसके प्रकार लिखिए । 3  
Explain the java control structure and write its types.

अथवा / OR

इनहेरिटेंस को समझाइये व इसके प्रकार लिखिए ।  
Explain the inheritance and write its types.



9 नेटवर्क मॉडल से आप क्या समझते हैं ? इसके कोई तीन लाभ लिखिए । 3

What do you mean by network model ? Write its any three advantages.

अथवा / OR

निम्नलिखित फ़ंक्शन्स को उदाहरण सहित समझाइये :

- (i) SIGN ( )
- (ii) TRUNCAT ( )
- (iii) POWER ( )

Explain the following functions with an example :

- (i) SIGN ( )
- (ii) TRUNCAT ( )
- (iii) POWER ( )

10 निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइये : 3

- (i) एन्टीटी
- (ii) एट्रीब्यूट
- (iii) रिलेशनशीप

Explain the following with example :

- (i) Entity
- (ii) Attribute
- (iii) Relationship

अथवा / OR

निम्नलिखित को समझाइये :

- (i) ई-शासन
- (ii) ई-लर्निंग
- (iii) ई-कामर्स

Explain the following :

- (i) E-governance
- (ii) E-learning
- (iii) E-commerce



- 11 नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं ? इसके लाभ लिखिए । 4  
How many types of Networks are there ? Write its advantages.

अथवा / OR

कम्प्यूटर वाइरस कितने प्रकार के होते हैं ? इससे हानि लिखिए ।  
How many are types of computer virus ? Write its disadvantages.

- 12 HTML में आर्डर लिस्ट को syntax सहित समझाइये । 4  
Explain Ordered list with syntax in HTML.

अथवा / OR

HTML में फोन्ट टैग को समझाइये ।  
Explain font tag in HTML.

- 13 My SQL की विशेषताएँ लिखिए । 4  
Write features of My SQL.

अथवा / OR

ट्रांजेक्शन की ACID प्रापर्टी को समझाइये ।  
Explain ACID properties of a transaction.

- 14 MYSQL के एग्रीगेट फक्शन को इसके प्रकारों सहित समझाइए । 4  
Explain Aggregate function with its type in MYSQL.

अथवा / OR

ज्वाँइन किसे कहते हैं ? इसके प्रकार लिखिए ।  
What is Join ? Write its types.

- 15 समाज में ICT के सकारात्मक प्रभाव लिखिए । 4  
Write the positive impact of ICT in society.

अथवा / OR

E-लर्निंग के लाभ एवं कोई दो E-लर्निंग वेबसाइट्स के नाम लिखिए ।  
Write the advantages of E-learning and mention the names of two  
E-learning websites.



- 16 इंटरनेट के विभिन्न सुरक्षा श्रेट को समझाइए । 5  
Explain various security threats of internet.

अथवा / OR

स्टार टोपोलॉजी से क्या आशय है ? इसके लाभ एवं हानियां लिखिए ।  
What do you mean by Star Topology ? Write its advantages and disadvantages.

- 17 आब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की विशेषताएँ लिखिए । 5  
Write the features of object oriented programming.

अथवा / OR

जावा में लोअर केस स्ट्रिंग मेथड और अपर केस स्ट्रिंग मेथड को उदाहरण एवं सिन्टेक्स सहित लिखिए ।

Write lower case string method and upper case string method with example and syntax in Java.

- 18 मीनू ड्राइवन यूजर इंटरफेस क्या है ? इसके लाभ लिखिए । 5  
What is menu-driven user interface ? Write its advantages.

अथवा / OR

SDLC को समझाइये ।  
Explain SDLC.

